



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2334]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2019/आषाढ़ 26, 1941

No. 2334]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2019/ASHADHA 26, 1941

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2019

का.आ. 2563 (अ.).—निम्न हस्ताक्षरी एतद् द्वारा वास्तुकला परिषद नियमावली, 1973 के नियम 14(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव अधिकारी के रूप में उन उम्मीदवारों के नाम और पते जिनके नामांकन भारत के वास्तुकला विद्यालयों के प्रमुखों में से वास्तुकला परिषद का तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए पाँच सदस्यों के चुनाव हेतु वैध पाये गए हैं, अधिसूचित करता है:

1. अभय विनायक पुरोहित, आईडीईएस डिजायन शिक्षा और वास्तुकला अध्ययन संस्थान, हडकेश्वर रोड, आउटर रिंग रोड, जंक्शन प्वाइन्ट, पोस्ट पिपला, नागपुर- 440037, महाराष्ट्र।
2. अमित कुमार गर्ग, गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, बहादुरगढ़-झज्जर रोड, गांव - कबलाना, झज्जर- 124101, हरियाणा।
3. अमोघ कुमार गुप्ता, वास्तुकला संस्थान, एस. ए. जी. ई. विश्वविद्यालय, राउ दवस बाईपास रोड, कैलोद करतल, इंदौर, मध्य प्रदेश।
4. अपर्णा हरीश सुरवे, बलवंत शेठ वास्तुकला विद्यालय, पांचवीं मंजिल मिथिबाई बिल्डिंग, वी० एल० मेहता रोड, विले पार्ले (डब्लू), मिथिबाई कॉलेज, मुंबई-400056, महाराष्ट्र।
5. बाबू र०, आरवीएस केवीके वास्तुकला विद्यालय, त्रिची-डिंडीगुल राजमार्ग, इनामुलथुर, जे जे इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडेन बॉटलिंग प्लांट और जे इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच, तिरुचिरापल्ली-621303, तमिलनाडु।

6. भारथ एन०, एम. एन. एम. जैन वास्तुकला विद्यालय, ज्योति नगर, थोरैपक्कम, चेन्नई-600097, तमिलनाडु।
7. सी० रेखा जेट्टी, एनआईटीटीई वास्तुकला विद्यालय, पोस्ट बॉक्स न० 6429, गोविंदपुरा, गोलाहली गाँव, येलहंका, एनएमआईटी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रोड, एनएच-7, बैंगलोर-560064, कर्नाटक।
8. सी वी दिलीप कुमार, मारिआन कॉलेज ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर, कजहाककूततम, क्रिफरा अपपरेल पार्क के पास, तिरुवनंतपुरम-695582 केरला।
9. हरी प्रसाद अग्रवाल, वास्तुकला विद्यालय, एपेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आईएस-2018, रामचंद्रपुरा, सीतापुर एक्सटेंशन, महात्मा गांधी अस्पताल के पास, जयपुर-303905, राजस्थान।
10. जयालक्ष्मी व०, क्रेसेंट वास्तुकला विद्यालय, सीठाकाठी इस्टेट, जीएसटी रोड, वंदलूर, अरीगनर, अन्ना प्राणी उद्यान, चेन्नई-600048 तमिलनाडु।
11. के. अभिमोड, ग्लोबल वास्तुकला संस्थान, पेराडिकुन्नु, नागरीपुरम, डाकघर पथीरिपला, पेराडिकुन्नु, पालक्कड-676842, केरल।
12. किरन एस. महाजनी, आयोजन वास्तुकला विद्यालय आईएसआई-4, रीको इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुरा, गोनेर रोड, महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर-302022, राजस्थान।
13. पी० सथीस कुमार, चेट्टीनाद वास्तुकला विद्यालय, चेट्टीनाद अनुसंधान और शिक्षा अकादमी, राजीव गांधी सलाई, केलम्बक्कम, काँचीपुरम-603103, तमिलनाडु,।
14. राजीव गर्ग, वास्तुकला और भू डिजाइन विद्यालय, श्री माता वैष्णोदेवी विश्वविद्यालय, कक्रियाल, कटरा- 182320, जम्मू और कश्मीर।
15. राजेंद्र भंगारी कोली, अनंतराओ पवार वास्तुकला महाविद्यालय, 103, शाहु कॉलेज रोड, शाहकरनगर, पार्वती, दत्तावदी पुलिस स्टेशन, पुणे-411009, महाराष्ट्र।
16. रामा आर. सुब्रह्मण्यम, दयानन्द सागर वास्तुकला विद्यालय, शाविगे मालेस्वर हिल्स, कुमारस्वामी ले-आउट बंगलौर-560078, कर्नाटक।
17. रंगासमी रामा राजू, डिजाइन पर्यावरण अकादमी और अनुसंधान संस्थान, थिरुपांचाली रोड, पंडियापुरम, तिरुचिरापल्ली, जिला-621213 तमिलनाडु।
18. वी० श्रीनिवासन, धनलक्ष्मी श्रीनिवासन वास्तुकला विद्यालय, त्रिची चेन्नई हाइवे, समयपूरम टोल प्लाज़ा, त्रिचिरपल्ली-621112, तमिलनाडु।

यदि कोई उम्मीदवार, जो अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता हो, वह 23 जुलाई, 2019 सायं 3.00 बजे तक या उससे पूर्व उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस के माध्यम से चुनाव अधिकारी को भेज कर ऐसा कर सकता/सकती है।

[फा.सं. 4-4/2019-टी.एस- VI

एस. ई. रिजवी, चुनाव अधिकारी

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th July, 2019

S.O. 2563(E).— In exercise of the powers conferred by Rule 14 (3) of the Council of Architecture Rules, 1973, the undersigned, as the Returning Officer hereby notifies the name and address of the candidates whose nomination have been found valid for election of the five members from amongst the Heads of Schools of Architecture in India to represent the Council of Architecture for a period of three years:

1. Abhay Vinayak Purohit, IDEAS-Institute of Design Education & Architectural Studies, Hudkeshwar Road-Outer Ring Road Junction Point, Post-Pipla, Nagpur-440037, Maharashtra.
2. Amit Kumar Garg, Ganga Institute of Architecture & Town Planning, Bahadurgarh-Jhajjar Road, Village-Kablana, Jhajjar-124101, Haryana.
3. Amogh Kumar Gupta, Institute of Architecture, SAGE University, Rau Dwas Bypass Road Kailod Kartal, Indore, Madhya Pradesh.
4. Aparna Harish Surve, Balwant Sheth School of Architecture, 5th Floor Mithibai Building, V.L. Mehta Road, Vile Parle (w), Mithibai College, Mumbai-400056, Maharashtra.
5. Babu R., RVS. KVK School of Architecture, Trichy-Dindigul Highway, Inamkulathur, Near JJ Engg. College, Between Indane Bottling Plant & JJ Engg. College, Tiruchirappalli-621303, Tamil Nadu.
6. Bharath N., MNM Jain School of Architecture, Jyothi Nagar, Thoraipakkam, Chennai-600097, Tamil Nadu.
7. C. Rekha Jetty, Nitte School of Architecture, Post box No.6429, Govindapura, Gollahali Village, Yelahanka, NMITE-Off.International Airport Road, NH-7, Bangalore-560064, Karnataka.
8. C.V. Dileep Kumar, Marian College of Architecture and Planning, Kazhakkuttam, Near kinfra Apparel Park, Thiruvananthapuram-695582, Kerala.
9. Hari Prasad Agarwal, School of Architecture, Apex Group of Institutions, IS—2018, Ramchandrapura, Sitapura Ext., Near Mahatma Gandhi Hospital, Jaipur-303905, Rajasthan.
10. Jayalakshmi V., Crescent School of Architecture, Seethakathi Estate, GST Road, Vandalur, Arignar Anna Zoological Park, Chennai-600048 Tamil Nadu.
11. K. Abhimod, Global Institute of Architecture, Peradikunnu, Nagaripuram PO, Pathiripala Peradikunnu, Palakkad-678642, Kerala.
12. Kiran S. Mahajani, Aayojan School Of Architecture, ISI-4, RIICO Institutional Area, Sitapura, Goner Road, Mahatma Gandhi Hospital, Jaipur-302022, Rajasthan.
13. P Satheesh Kumar, Chettinad School of Architecture, Chettinad Academy of Research and Education, Rajiv GandhiSalai, Kelambakkam, Kanchipuram-603103, TAMIL NADU.
14. Rajeev Garg, School of Architecture and Landscape Design, SMVD University, Shri Mata Vaishno Devi University, Kakryal, Katra-182320.
15. Rajendra Bhangari Koli, Anantrao Pawar College of Architecture, 103, Shahu College Road, Sahakarnagar, Parvati,, Dattawadi Police Station, Pune-411009, Maharashtra.
16. Rama R. Subramanian, Dayananda Sagar School of Architecture, Shavige Malleswara Hills, Kumaraswamy Layout, Bangalore-560078, Karnataka.
17. Rengasamy Rama Raju, Designed Environment Academy & Research Institute (DEAR Institute) Thirupanchali Road, Pandiyapuram, Tiruchiappalli, District-621213, Tamil Nadu.
18. V. Srinivasan, Dhanalakshmi Srinivasan School of Architecture, Trichy Chennai Highway, Samayapuram, Near Samayapuram Toll Plaza, Trichirappalli-621112, Tamil Nadu.

2. Any candidate who may wish to withdraw his / her candidature may do so through a notice in writing signed by him / her and delivered to the Returning Officer not later than 03:00 PM on 23rd July, 2019.

[F.No. 4-4/2019-TS.VI]

S. E. RIZWI, Returning Officer